

CP-0864



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : d1667d0521d185003f18

Receipt Date : 21-Apr-2022 08:59:05 am

Receipt Amount : 50/-

Amount In Words : Fifty Rupees Only

Document Type : Affidavit

District Name : SaraikelaKharsawan

Stamp Duty Paid By : APEX AUTO LIMITED

Purpose of stamp duty paid : AGREEMENT

First Party Name : APEX AUTO LIMITED

Second Party Name : APEX AUTO LIMITED


GRN Number : 2210934079



21442

known to me and sign before me
Advocate, Jamshehpur
21/4/22

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

APEX AUTO LIMITED

Authorized Signatory


AFFIDAVIT

I, Rajesh Mittal, authorised representative of M/s. APEX AUTO LIMITED S/O Banwari Lal Mittal, resident of Flat no. 914, Syndicate Colony, Dhananjay Path, Ulliyan Kadma, Jamshedpur – 831005, by faith Hindu, by occupation Business, by Nationality Indian address Plot no. FE-34 (survey plot no. 354 (P)) near 7th Phase Industrial Area, Seraikela Kharsawan, Khata No - 81, Village/Mouza : Hatiyadih, Thana No. 60, do hereby solemnly affirm and declare that the statements made herein below are true to the best knowledge and belief.

1. That I, Rajesh Mittal, authorised representative of M/s. APEX AUTO LIMITED, S/O Banwari Lal Mittal, resident of Flat no. 914, Syndicate Colony, Dhananjay Path, Ulliyan Kadma, Jamshedpur – 831005 of land situated Plot no. FE-34 (survey plot no. 354 (P)) near 7th Phase Industrial Area, Seraikela Kharsawan, Khata No - 81, Village/Mouza: Hatiyadih, Thana No. 60, measuring total area of 202779 sft or 18838.7 sqm or 4.65 acres.
2. That the land mentioned above is a leasehold property and does not belong to Khas Mahal Estate of Government. It is not either Gair Mazarua Aam Khas, Kaisare Hind, District Board or Acquired Land
3. That the land stated above is not a tribal land.
4. That I have applied a building plan vide B.C. Case No. That further declare that in future, if it will be found that property mentioned above are Gair Mazarua Aam Khas, Kaisare Hind, District Board or Acquired Land property of Govt. the sanctioned map will be deemed to be cancelled due to misrepresentation and suppression of facts.

Sworn & Signed this Affidavit on this 21st day of April 2022 At Jamshedpur.

Dinesh Narayan Singh
NOTARY
District Court
JAMSHEDPUR



APEX AUTO LIMITED
Deponent: *[Signature]*
Identified by: *[Signature]* Authorised Signatory

[Signature]
(Advocate, Jamshedpur)